



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साइरिक प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

भाद्र 28, गुरुवार, शाके 1941-सितम्बर 19, 2019
Bhadra 28, Thursday, Saka 1941-September 19, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT
RAJASTHAN, JAIPUR
ORDER

Jaipur September 04, 2019

F.10 (Elec) LSG/19/8766 .-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipalities (Election) Rules, 1994 the Chief Municipal Officer Municipal Board Surajgarh has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Board Surajgarh. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of the Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by the Chief Municipal Officer .

By Order,
Ujjwal Rathore,
Joint Secretary to Governement.

कार्यालय नगरपालिका सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं राज०

प्रपत्र क

वार्ड संख्या 01

कायो की बाड़ी के दक्षिण पूर्वी कोने से उत्तर की ओर सड़क सड़क चलकर लुहारु रोक तक कुरडाराम नायक के मकान को शामिल करते हुए पश्चिम की ओर लुहारु रोड पर काजडा के कच्चे रास्ते से पूर्व में सीताराम पीरुराम नायक के मकान को शामिल करते हुए जयनारायण नायक के मकान कोने तक लुहारु रोड के मकानों को शामिल करते हुए कायों की बाड़ी का क्षेत्र काजडा सीमा तक

वार्ड संख्या 02

कालू जोगी के मकान के कोने से लेकर पश्चिम की तरफ मंगला माली के समस्त बाए भाग को शामिल करते हुए यहाँ से लुहारु रोड पार करते हुए उत्तर दिशा की तरफ मधुकर श्याम महाविधालय के कॉर्नर तक का समस्त बाया भाग शामिल करते हुए यहाँ से पश्चिम की तरफ चलकर कुम्हारों के मकान तक समस्त बाये भाग को शामिल करते हुए यहाँ से दक्षिण में बिमला पत्नी श्री दुरगा कुम्हार तक खसरा नम्बर 796 यहाँ से काजडा रोड क्रोस करते हुए मोतीलाल नाई के प्लाट तक 797 खसरा नम्बर तक यहाँ से पचायत समिति रोड क्रोस करते हुए पश्चिम की तरफ अन्तर सिंह के मकान तक का समस्त बाये भाग को शामिल करते हुए यहाँ से दक्षिण में शेरसिंह के खेत तक यहाँ से पश्चिम

की तरफ चलकर दक्षिण मे बीड को शामिल करते हुए समस्त दाया भाग यहाँ से घरडू चौराह से उत्तर की तरफ चलकर लुहारु रोड पर चलते हुऐ कॉर्नर पर बिजली के खम्भे तक यहाँ से पूर्व की तरफ पुलिस थाने से रोड रोड चलकर कन्हैया ऑटो मोबाइल की दुकान तक का समस्त दाया भाग जिसमें कुम्हार बस्ती, मुस्लिम बस्ती को शामिल करते हुए कन्हैया ऑटो मोबाइल की दुकान के कॉर्नर से उत्तर की तरु चलते हुऐ रमेश लखेरा की दुकान तक समस्त दाया भाग यहाँ से उत्तर मे बस स्टेण्ड पर श्याम सुन्दर मंगल की दुकान से उत्तर की तरफ चलकर कालु जोगी के मकान तक का समस्त दाया भाग

वार्ड संख्या 03

गौशाला के कोने से चिडावा रोड पर दक्षिण मे घरडू चौराहे पर गौशाला के खेत के कोने तक का समस्त बाया भाग यहाँ से झाबर धाएक टैगोर स्कूल होते हुऐ रोड पार कर पूर्व की तरफ मान फोटो स्टेट एण्ड बुक डिपों तक यहाँ से दक्षिण की तरफ चलकर कर्मवीर डुड़ी के मकान तक का समस्त बाया भाग शामिल करते हुए यहाँ से महेन्द्र मास्टर के मकान तक यहाँ से उत्तर की तरफ बबलु मॉडलिंग की दुकान तक यहाँ से रोड क्रोस कर उत्तर मे तारा माली की दुकान तक का समस्त बाया भाग शामिल करते हुऐ यहाँ से उत्तर की तरफ चलकर प्रमोद खेड़ के मकान तक के कोने तक के समस्त बाया भाग शामिल करते हुऐ इनके कोने से पश्चिम की तरफ टैगोर छाजावास तक का समस्त बाया भाग जिसमें नायकान बस्ती हनुमान मन्दिर आदी यहाँ से नाला पार कर उपखण्ड कार्यालय के दक्षिण कोने से चलकर उत्तरी कोने तक का समस्त बाया भाग यहाँ से पश्चिम की तरफ चलकर उपखण्ड क्षेत्र को शामिल करते हुऐ बस स्टेण्ड रोड पार कर उत्तर की तरफ रोड रोड चलकर चाणक्यपुरी के अन्तिम कोने तक का समस्त बाया भाग शामिल करते हुऐ यहाँ से पश्चिम की तरफ गौशाला क्षेत्र व गौशाला के बाये भाग को शामिल करते हुऐ गौशाला के कोने तक का समस्त बाया भाग

वार्ड संख्या 04

शेखावाटी प्रेस से दक्षिण की तरफ चलते हुऐ सन्तोषी माता के मन्दिर तक का समस्त दाये भाग को शामिल करते हुए यहाँ से पश्चिम की तरफ गली से दक्षिण की तरफ केडियो के नोहरे तक का समस्त दाया भाग शामिल करते हुए यहाँ से पश्चिम की तरफ दाल आटा मिल तक यहाँ से पश्चिम की तरफ चलकर रोड पार करते हुए पवन बावरिया की दुकान से चेतराम बावरिया तक के मकान तक का समस्त दाया भाग शामिल करते हुए यहाँ से दक्षिण की तरफ सड़क के दाये तरफ के मकानों को शामिल करते हुए रिछपाल शर्मा के कुए होते पश्चिम की तरफ सागर खाती के खेत को शामिल करते हुऐ गोगावतों की ढाणी से उत्तर की तरफ घरडू तिराहे के समस्त दाये भाग को शामिल करते हुए यहाँ से पूर्व की तरफ चलते हुऐ बरासिया विसर्गम गह तक का समस्त दाया भाग शामिल करते हुऐ यहाँ से दक्षिण मे बरासिया कॉलेज रोड क्रोस कर पुजा ब्यूटी पार्लर की दुकान तक यहाँ से पूर्व की तरफ बाबुलाल मिश्रा के घर के सामने तक यहाँ से रोड पार उत्तर में गली गली चलते हुऐ सांवरिया स्वीट्स तक का समस्त दाया भाग यहाँ से पूर्व की तरफ शेखावाटी प्रेस तक का समस्त दाया भाग

वार्ड संख्या 05

महावीर महापालवासिया की दुकान से दक्षिण की तरफ चलकर ज्वेलरी की दुकान तक का समस्त बाया भाग शामिल करते हुए यहाँ से पश्चिम की तरफ सन्तोषी माता के मन्दिर होते हुए प्रथम गली के उत्तरी कोने से शिवरत्न लाल माड़ीवाल के घर तक का समस्त बाया भाग यहाँ से पश्चिम की तरफ माड़ीवाल के नोहरे से उत्तर की तरफ यहाँ से पश्चिम की तरफ गोकल बावरिया के मकान से बिजली बोर्ड की सड़क पार करते हुऐ विनोद बावरिया से बलेसिंह के मकान तक का समस्त बाया भाग यहाँ से दक्षिण में कंवरपाल बावरिया के मकान होते हुए रामस्वरूप पूर्व पार्षद के घर होते हुए कुरड़ाराम माली के खेत से पूर्व की तरफ लोकराम पुनिया से सिंगनल की तरफ उत्तर की तरफ यहाँ से कपाल सैन पञ्चकार होते हुए सस्कृत स्कूल गाधी मन्दिर स्कूल होते हुऐ बन्टी ज्यूस सेन्टर की दुकान तक का समस्त बाया भाग यहाँ से पश्चिम की तरफ महावीर महापालवासिया की दुकान तक का समस्त बाया भा

वार्ड संख्या 06

सुरेन्द्र वैध के दवाखाने से दक्षिण की तरफ रेल्वे स्टेशन से सिंगनल तक का समस्त बाया भाग शामिल करते हुऐ यहाँ से पूर्व की तरफ धोबली जोहड़ी, मामराज यादव के खेत तक का समस्त बाया भाग यहाँ से पश्चिम की तरफ चिड़ावा रोड रोड चलकर बुहाना फाटक रेल्वे पार करते हुऐ गौदामों को शामिल करते हुऐ सुरेन्द्र वैध के दवाखाने तक का समस्त बाया भाग

वार्ड संख्या 07

अली भडभुजा के घर से पूर्व की तरफ रोड रोड चलकर खटीकान सेवा संगठन के कॉर्नर तक के समस्त दाये भाग को शामिल करते हुऐ यहाँ से दक्षिण की तरफ चलकर सत्यनारायण सौलकी हरीसिंह मास्टर , बाबुलाल बड़सीवाल के मकान तक इनके मकान की गली से दक्षिण में चलते हुऐ बाबुलाल पुत्र झुथाराम के मकान तक का समस्त दाया भाग यहाँ से पश्चिम की तरफ चलकर रोड रोड होते हुऐ दायी तरफ मुस्लमान बस्ती , मस्जिद को शामिल करते हुऐ बुहाना रोड पर मन्दिर के कोने तक यहाँ से उत्तर दिशा की तरफ वापिस मुड़कर मदरसा को शामिल करते हुऐ यहाँ से पश्चिम की तरफ चलकर कसाईयों के मकान को शामिल करते हुऐ यहाँ से दक्षिण की तरफ चलकर कसाईयों के घरों को शामिल करते हुऐ कोने तक का समस्त बाया भाग यहाँ से पश्चिम की तरफ चलकर फिर उत्तर की तरफ मुड़कर कसाईयों के घरों के समस्त बाया भाग को शामिल करते हुऐ कॉर्नर से शौकत अली के मकान के बाये भाग को शामिल करते हुऐ यहाँ से रोड रोड चलकर भार्गवों के मकान को शामिल करते हुऐ समस्त दाया भाग यहाँ से उत्तर की तरफ चलकर अली भडभुजा के घर का समस्त दाया भाग शामिल रहेगा

वार्ड संख्या 08

पालीराम चेतीवाल के धर से पश्चिम की तरफ चलकर इनके कोने से बुहाना रोड तक का समस्त बाया भाग शामिल करते हुए कोने से छगन धानक की दुकान से पुर्व की तरफ चलकर कोने तक यहा

से उतर की तरफ सी सी रोड होते हुए माडुराम सौलकी के घर तक का समस्त बाया भाग इनके उत्तरी कोने से पश्चिम की तरफ पालीराम चेतीवाल के मकान तक का समस्त बाया भाग

वार्ड संख्या 09

बजरग मेघवाल की दुकान से पुर्व की तरफ चलकर गली गली चलते हुए प्रभाती लाल कटारिया की दुकान का समस्त दाया भाग शामिल करते हुए यहाँ से दक्षिण की तरफ चलते हुए पुर्व पार्षद फुलचन्द प्रेमी के घर को शामिल करते हुए यहाँ से पश्चिम की तरफ मेहतर एवं घानको की बस्ती को शामिल करते हुए टास्फार्मर का समस्त दाया भाग शामिल करते हुए यहाँ से उत्तर की तरफ चलते हुए मेहतरो का मौहल्ला घाण्क बस्ती को शामिल करते बजरग मेघवाल की दुकान का समस्त दाया भाग

वार्ड संख्या 10

खटीकान कुऐ से दक्षिण की तरफ चलकर बुहाना रोड तक का समस्त बाया भाग शामिल करते हुए यहाँ से फाटक रेल्वे बुहाना पार करते हुए समस्त दाये भाग को शामिल करते हुए गोपालपुरा बाईपास रोड तक यहाँ से उतर की तरफ चुना मेघवाल के खेत तक यहाँ से भागीरथ रेगर तक यहाँ से गजान्नद कटारिया पश्चिम के खेत तक यहाँ लाइन क्रस कर चक्की कटारिया होते हुए यहाँ से पश्चिम की तरफ काने पर सब्जी की दुकान तक का समस्त बाया भाग यहाँ से दक्षिण की तरफ चलकर यहाँ से पुर्व की रोड चलकर समस्त दाये भाग को शामिल करते हुए खटीकान कुऐ तक

वार्ड संख्या 11

भूराराम बाकोलिया की दुकान से पूर्व की तरफ चलते हुए छ्याली राम जगदीश बाकोलिया के मकान को शामिल करते हुए खाली प्लाट से दक्षिण की तरफ रामदेव मन्दिर तक यहाँ से रोड की तरफ के समस्त दाये भाग को शामिल करते हुए महेन्द्र गार्व के मकान तक यहाँ से पूर्व की तरफ न्थूराम मास्टर के नोहरे तक यहाँ से दक्षिण मे बसन्तलाल मेघवाल के मकान तक यहाँ से पूर्व की तरफ रेल्वे लाईन तक का समस्त दाया भाग यहाँ से दक्षिण की तरफ रेल्वे लाईन चलते हुए यहाँ से पश्चिम मे हरसिंह मिस्जी के मकान तक का समस्त दाया भाग इनके कोने से बनवारी मेघवाल के मकान तक यहाँ से रोड पार करते हुए प्रभाती की दुकान से दाये भाग को शामिल करते हुए पश्चिम मे न्थू लाईन मेन की दुकान तक का समस्त दाया भाग शामिल करते हुए उत्तर की तरफ भूराराम बाकोलिया की दुकान तक का समस्त दाया भाग

वार्ड संख्या 12

भोलाराम पूर्व चेयरमेन की चक्की से पूर्व की तरफ चलते हुए रामनारायण श्योराम के मकान होते हुए सन्तकुमार पेन्टर के मकान तक का समस्त दाया भाग शामिल करते हुए यहाँ से दक्षिण की तरफ फुलचन्द मास्टर के मकान तक यहाँ से पूर्व की तरफ प्रहलाद गुरावा के मकान तक होते हुए न्थूमास्टर के नोहरे से दक्षिण की तरफ चलते हुए यहाँ से पूर्व की तरफ रेल्वे लाईन क्रोस करते हुए

भोला रैगर यहाँ से उत्तर की तरफ धीसा रैगर के खेत तक यहाँ से पश्चिम की तरफ अण्डर ब्रिज तक यहाँ से दक्षिण की तरफ रेल्वे लाईन चलकर पपू मेघवाल के मकान होते हुए गोपीराम मास्टर मौर्य बस्ती होते हुए यहाँ से उत्तर की तरफ यहाँ से पूर्व की तरफ सन्तलाल सौकरीया के मकान होते हुए बाबूलाल मास्टर लिक्षण राम को शामिल करते हुए भंवर लाल डिग्वाल तक की दुकान का समस्त बाया भाग यहाँ से दक्षिण मे चलकर भोलाराम रैगर की चक्की तक का समस्त दाया भाग

वार्ड संख्या 13

निर्मल हलवाई की दुकान से स्टेशन रोड चलते हुए लाल बहादुर शास्त्री स्कूल पोस्ट ऑफिस , खातीयो का मौहल्ला भार्गव बस्ती को शामिल करते हुए बुहाना चौराहे तक का समस्त बाया भाग यहाँ से पूर्व की तरफ बुहाना रोड चलते हुए यहाँ से उत्तर की तरफ जलदाया विभाग के रास्ते चलते हुए रमजान खाँ के मकान तथा कोने पर भार्गवों के मकान को शामिल करते हुए समस्त बाया भाग यहाँ से उत्तर की तरफ चौथू डाकोत के मकान को शामिल करते हुए यहाँ से उत्तर की तरफ रोड रोड चलते हुए शाराब ठेका को शामिलत करते हुए लाल बहादुर शास्त्री स्कूल के पिछे कोने तक यहाँ से पूर्व की तरफ रोड रोड चलकर टासफार्मर तक का समस्त बाये भाग को शामिल करते हुए यहाँ से उत्तर की तरफ चलकर लीलाराम रैगर के टूटे फुटे मकान का समस्त बाया भाग शामिलत करते हुए यहाँ से पश्चिम की तरफ रोड रोड चलकर धनश्याम बाकोलिया के मकान तक का समस्त बाया भाग शामिल करते हुए यहाँ से रोड रोड चलकर रानी बाग होटल के उत्तरी कोने तक का समस्त बाया भाग शामिल करते हुए यहाँ से रानी बाग होटल के कोने से पश्चिम की तरफ चलकर रोशन टेलर के मकान तक यहाँ से दक्षिण मे शंकर सोनी के प्लाट के कोने तक यहाँ से रोड पार करते हुए पश्चिम के तरफ के समस्त बाये भाग को शामिल करते हुए निर्मल हलवाई की दुकान तक

वार्ड संख्या 14

सरस्वती शिशु मन्दिर के उत्तरी कोने से चलकर बुहाना रोड तक के समस्त दाये भाग को शामिल करते हुए यहाँ से पश्चिम की तरफ चलकर पपू सैनी की मिठाई की दुकान का समस्त दाया भाग शामिल करते हुए यहाँ से उत्तर दिशा की तरफ चलते हुए तीराहे तक के समस्त दाये भाग को शामिल करते हुए तीराहे से जलदाय विभाग सरतीदेवी मान गोगामन्दिर हरीजन शमशान घाट के कोने से बस स्टेण्ड रोड के दाये भाग कोने पर नर्सरी आंगबाड़ी तथा उससे आगे चलकर कोने तक का समस्त दाया भाग शामिल करते हुए यहाँ से पूर्व की तरफ चलकर रोड रोड होते हुए सरस्वती शिशु मन्दिर के उत्तरी कोने तक का समस्त दाया भाग

वार्ड संख्या 15

गजानन्द शरीफ के मकान से पश्चिम की ओर रास्ते रास्ते चलकर कन्हैया लाल के मकान को शामिल कर श्रीराम जोशी की चक्की तक जहाँ से पश्चिम की ओर सड़क सड़क चलकर किशनी मणिहारी तक यहाँ से पश्चिम की ओर रास्ते चलकर बाये हाथ का सम्पूर्ण मालीयों की ढाणी का क्षेत्र शामिल करते हुए पीरजी तक वहाँ तक यहाँ से रास्ते रास्ते चलकर जुमा इलाही के मकान को बाये शामिल करते हुए मैन मस्जिद को लेकर स्टेशन रोड तक यहाँ उत्तर की ओर सिधे चलकर सराफो की हवेली को शामिल करते हुए केशर देव शर्मा व पेडमैन इलाही के मकान को शामिल करते हुए कैलाश नाई के मकान के कोने तक यहाँ से उत्तर मे चलकर बाये हाथ का क्षेत्र शामिल कर सत्यनारायण नाई

के मकान तक फिर पूर्व मे चलकर नन्दलाल केडिया की हवेली को शामिल कर पून गजानन्द के मकान से मिला रहेगा

वार्ड संख्या 16

भागचन्द का शमशान से पूर्व मे बाजार की और चलते हुए नन्दलाल शाह के मकान को शामिल करते हुए विश्वनाथ महमिया के नोहरे तक यहाँ से उतर पश्चिम की और गली मे ताराचन्द शाह चिरंजीलाल अलेसरिया का बाये मे शामिल कर वहा से उतर की और चलकर शम्भूदयाल के मकान तक यहाँ से पूर्व मे चलकर जोखीराम काया के नोहरे तक यहाँ से उतर मे चलकर डॉ राजकुमार की डिस्पेन्शरी को शामिल करते हुए बाये बाकेरायका स्कूल तक यहाँ से पश्चिम की ओर चलकर श्याम सुन्दर के मकान को बाये शामिल कर महावीर प्रसाद छापडिया के नोहरे तक यहाँ से पश्चिम की और चलकर रामदास की बगीची को शामिल करते हुए भागचन्द को शमशान तक

वार्ड संख्या 17

रूपचन्द शर्मा कम्पाउडर के मकान के पूर्व कोने से चलकर राधेश्याम शर्मा के मकान तक का समस्त दाया भाग शामिल करते हुए यहाँ से पश्चिम की तरफ सराफ हवेली , डलमियो की धर्मशाला नारनौलियों के मकान होते हुए गोगावतो के मकान राजेन्द्र भट्ट के मकान तक का समस्त दाया भाग यहाँ से दक्षिण की तरफ बाजार रोड होते हुए बालिका विधालय से पश्चिम की तरफ गजानन्द सोनी तक यहाँ से उतर की तरफ बाजार सड़क से फरट रोड होते हुए समस्त दाया भाग को शामिल करते हुए सीतलामाता होते हुए दुलीचन्द गोदारा के मकान तक का समस्त दाया भाग यहाँ से पूर्व की तरफ चलकर चौराहे तक पालीराम तक यहाँ से दक्षिण की तरफ चलकर रूपचन्द शर्मा के मकान तक का समस्त दाया भाग

वार्ड संख्या 18

महेश वर्मा के मकान से रोड पार करते हुए दक्षिण मे भंवर सिंह मास्टर के मकान तक का समस्त दाया भाग यहाँ से पश्चिम मे सत्यनारायण दरोगा के मकान होते हुए गोरर्धन पनवाड़ी की दुकान के पास चन्द्रशेखर रेडिमेन्ट वस्त भण्डार के कोने तक का समस्त दाया भाग यहाँ से उतर की तरफ नारनौलिया के मकान तक का दाया भाग यहाँ से उतर की तरफ नारनौलियो के मकान तक का दाया भाग यहाँ से पूर्व की तरफ सुनिल पालीवाल के मकान से रोड क्रोस करते हुए पूर्व की तरफ चलते हुए समस्त दाये भाग को शामिल करते हुए मोहन लाल कुमावत से उतर की तरफ जयप्रकाश शर्मा तक के समस्त दाया भाग यहाँ से पूर्व की तरफ मातादीन शर्मा के मकान को शामिल करते हुए से दक्षिण की तरफ चलकर सुरेश चेजारा के मकान को शामिल करते हुए यहाँ से पश्चिम की तरफ महेश वर्मा के मकान तक

वार्ड संख्या 19

जीवनराम चौकवाले के मकान से पश्चिम की ओर बाबुलाल गाड़ीवाले के मकान को शामिल करते हुए दक्षिण की ओर चलकर जमाल इलाही के मकान को शामिल करते हुए विश्वभर लाल शाह की दुकान

तक यहाँ से ज्वाला प्रसाद के नोहरे तक फिर पूर्व की ओर चलकर मोरी से निकल कर उतर की ओर मांजी शहब के कुऐ को शामिल करते हुऐ पश्चिम की ओर भैया के मनिदर व कोटडी को शामिल करते हुऐ मदन लाल छापडिया की दुकान तक यहाँ से दक्षिण की ओर चलकर स्टेशन रोड चलकर गोपीनाथ जी के मनिदर को शामिल करते हुऐ रास्ते रास्ते फुलजी दर्जी के मकान को शामिल करते हुऐ जीवनराम चौकवाले के मकान से मिला रहेगा

वार्ड संख्या 20

धनश्याम बाकोलिया के मकान के कोने से पूर्व की तरफ चलते हुऐ भंवरलाल पटवारी की दुकान तक का समस्त बाया भाग यहाँ से लिक्ष्मणराम कनवाडिया के मकान के कोने से पूर्व की तरफ रोहिताश कनवाडिया भोलाराम मास्टर, सज्जन गजराज, बुधराम बाकोलिया के मकान होते हुऐ चुन्नी लाल कनवाडियो से भंवर लाल पटवारी के खाली प्लाट होते हुऐ रामदेव रैगर के खेत तक का समस्त बाया भाग शामिल करते हुऐ यहाँ से उतर की तरफ चलकर रेल्वे अण्डर ब्रिज तक का बाया भाग यहाँ से पश्चिम की तरफ बालुराम फतेहपुरिया की हवेली तक का समस्त बाया भाग यहाँ से दक्षिण की तरफ चौहानो के घर तक यहाँ से पश्चिम की तरफ किशोरी लाल, लीलम खाँ मकान होते हुऐ कॉर्नर तक यहाँ से दक्षिण की तरफ कॉर्नर पर चौधरियों के मकान के कोने से डॉक्टर रामुतार के मकान होते हुऐ धनश्याम बाकोलिया के मकान तक

वार्ड संख्या 21

मित्र निवास के उत्तरी पूर्वी कोने से हरिराम खुर्दमोईवाले के मकान को शामिल करते हुऐ दक्षिण की ओर चलते हुऐ डालुराम माली के मकान को शामिल करते हुऐ गणपत माली के मकान को शामिल करते हुऐ पूर्व मे रास्ते रास्ते चौथू खाती के मकान को शामिल करते हुऐ पालीरामजी के बाग को शामिल करते हुऐ पीछे तक के रास्ते होते हुऐ जाखोद रोड तक वहा से पश्चिम मे चलते हुऐ दाये हाथ का क्षेत्र शामिल करते हुऐ सुनारो की तेल मिल तक वहा से उत्तर मे रास्ते महावीर फुलवाज के मकान के दाये क्षेत्र को शामिल करते हुऐ राधेश्याम शर्मा के मकान को शामिल करते हुऐ रामनाथ चौधरी के मकान को शामिल करते हुऐ मित्र निवास के उत्तरी कोने से मिला रहेगा

वार्ड संख्या 22

सोहन लाल माली के घर से दक्षिण की तरफ चलकर शंकर लाल सोनी के मकान तक का समस्त बाया भाग शामिल करते हुऐ यहाँ से इनके कोने से पूर्व की तरफ पालीराम स्कूल विकास स्कूल होते हुऐ लाईन पार करते किरण कुंज बिहार तक का समस्त बाया भाग यहाँ से पश्चिम मे भगवाना माली गिराराज माली रामचन्द्र माली से पश्चिम में हनुमान माली तक का समस्त बाया भाग यहाँ से लुहारू रोड बाये कोने से दक्षिण की तरफ चलते हुऐ सीमेन्ट रोड रोड चलकर भुडनपुरियो के नोहरे तक का बाया भाग शामिल करते हुऐ यहाँ से पूर्व की तरफ रोड रोड चलकर यहाँ से दक्षिण की तरफ रोड पार करते हुऐ सोहन लाल माली के मकान तक का समस्त बाया भाग

वार्ड संख्या 23

महावीर सेकरेटरी के मकान ,मेघवाल बस्ती से पश्चिम की तरफ चलते हुऐ शेखावाटी रिसोर्ट के कोने

का समस्त दाया भाग शामिल करते हुए यहाँ से उतर की तरफ सजन दिपक के खेत के कोने तक का दाया भाग यहाँ से पश्चिम की तरफ से जाटों के कुएं तक का समस्त दाया भाग यहाँ से उतर की तरफ रोहतान कुम्हार तक होते हुए फरट रोड चौराहे को ओस कर सरस्वती बाई के खेत तक यहाँ से पूर्व की तरफ जयप्रकाश सैनी बनवारी श्योराण के मकान तक यहाँ से लुहारू रोड पर दाये दाये चलते हुए कोने से दक्षिण की तरफ चलते हुए शमशान घाट को शामिल करते हुए भुडनपुरियों के नोहरे तक का समस्त दाया भाग यहाँ से दक्षिण की तरफ चलते हुए खाली प्लाट के काँनेर से होते हुए नर्सि सैनी के नोहरे तक का समस्त दाया भाग शामिल करते हुए यहाँ से रोड पर से पश्चिम की तरफ होते हुए महावीर सेकरेटरी के मकान तक का समस्त दाया भाग

वार्ड संख्या 24

रामप्रताप काया के नोहरे से पूर्व में चलकर सुरजमल दायमा के मकान तक उतर में रास्ते रास्ते चलकर लुहारू रोड के पास फरट सीमा पंचायत तक उसके बाद पश्चिम में फरट सीमा के सहारे सहारे गुगनराम जाट के कुएं को शामिल करते हुए दक्षिण में रास्ते रास्ते चलकर कुम्हारों के मौहल्ले में मालीराम कुम्हार के मकान को शामिल करते हुए शिव भगवान नाई के मकान तक यहाँ से पूर्व की और काया संदन को शामिल करते हुए रामप्रताप काया के नोहरे के बाये हाथ का क्षेत्र मिला रहेगा फरट रोड का बाया भाग शामिल करते हुए राजस्व सीमा तक

वार्ड संख्या 25

सरकारी अस्पताल के दक्षिण पश्चिम कोने से पूर्व की और चलकर किशन लाल नाई के मकान तक यहाँ से उत्तर की और चलकर मदन कुम्हार के मकान को शामिल करते हुए पुरुषोत्तम खण्डेलवाल के मकान को शामिल करते हुए सीधे लुहारू रोड के बाये हाथ का क्षेत्र शामिल करते हुए लुहारू रोड पश्चिम की और चलकर विष्णू माली के खेडे को शामिल करते हुए चौराहे से दक्षिण की और रास्ते रास्ते चलकर ग्राम सहकारी समिति को शामिल करते हुए सरकारी अस्पताल से मिला रहेगा लुहारू रोड पार कर राजस्व सीमा तक

अधिशासी अधिकारी

नगरपालिका सूरजगढ़

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।